

FCS/STX/2024

25th May, 2024

To,
The Bombay Stock Exchange Ltd.,
Corporate Relationship Department,
P J Tower, Dalal Street,
Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400051

Dear Sir,

Subject: - Intimation of Newspaper advertisement of 217th Board Meeting held on 24th May, 2024

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to requirement of Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement with respect to outcome of 217th Board meeting held on 24th May, 2024 and published in the following newspapers on 25th May, 2024:

1. Financial Express, New Delhi – English Newspaper
2. Haribhoomi, New Delhi- Hindi Newspaper

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For FCS Software Solutions Limited

HARSHA

Digitally signed by HARSHA
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=201014,
st=Uttar Pradesh,
serialNumber=8DE5CA0BC1D772D130D8DF8
0BA376914916934ACE21307512EC65C540AC
9DF8F, cn=HARSHA
Date: 2024.05.25 12:46:50 +05'30'

(Harsha Sharma)
Company Secretary
Membership No- A33548

FCS Software Solutions Limited

Regd. off : 205, 2nd Floor, Aggarwal Chamber IV, 27, Veer Sawarkar Block, Vikas Marg, Shakerpur, Delhi 110 092
Tel: +91-011-42418371, www.fcsltd.com
Corporate Office: Plot No. 83, NSEZ, Noida Phase II, Noida-201305, Tel: 0120-4635900 Fax: 0120-4635941
Email id: investors@fcsltd.com website:- www.fcsltd.com
Noida Office: A-88, Sector-57, Noida-201301, India, Tel: 0120-3061100, Fax No-0120-3061111
Plot No. 1A, Sector-73, Noida-201301
Chandigarh Office: Plot -J-7, Rajiv Gandhi Chandigarh Technology Park, Kishan Garh Chandigarh-160101
Panchkula Office: Plot No.-11, HSIIDC Park, Sector-22, Panchkula, Haryana -134109
Gurugram Office: Plot No-54, EHTP, Sector-34, Gurugram-122004



OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - III
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT 1)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.
TRC/2112/2022 20-12-2023

PUNJAB NATIONAL BANK Versus AMIT SINGHAL AND ORS.

To,
(CD1) **Amit Singhal S/o Vijay Kumar Singhal**, R/o 125, Sector 09, Raj Nagar, Ghaziabad, U. P. 201001.
(CD2) **Ritu Singhal W/o Amit Singhal**, R/o 125, Sector 09, Raj Nagar, Ghaziabad, U. P. 201001.
(CD3) **Naveen Kumar S/o Brij Lal**, R/o III-F-241, Vaishali, Ghaziabad, U. P. 201001.
(CD4) **Balaji Hi-tech Constructions Pvt. Ltd.**, Through Its Director - Sachin Dutta, D-3, Vivek Vihar, Delhi-110095.

Whereas you the **AMIT SINGHAL AND ORS.** was ordered by the Presiding Officer of **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT 1)** who had issued the Recovery Certificate dated 03/08/2019 in to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of **Rs. 34,61,810.00 (Rupees Thirty Four Lakhs Sixty One Thousands Eight Hundred Ten Only)** along with pendente lite and future interest @ 12.50% w.e.f. 05/09/2016 till realization and costs of Rs 37,000.00, and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **20/08/2024 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification of property
PROPERTY BEARING FLAT NO. 605, 6TH FLOOR, TOWER-FH/B IN PROJECT "FOSTER HEIGHTS" SITUATED AT PLOT NO. 14, SECTOR-02 BEHIND ABES ENGG. COLLEGE, NH-24 CROSSING REPUBLIK, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 20/12/2023

Recovery Officer
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)

Note: Strike out whichever is not applicable...

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - III
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT 1)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.
TRC/42/2024 02-04-2024

PUNJAB NATIONAL BANK Versus SHASHI PRABHA MISHRA

To,
(CD1) **SHASHI PRABHA MISHRA W/O BRIJENDRA KUMAR MISHRA**, L-350, SECTOR 12, MIG SUPER PARTAP VIHAR, GHAZIABAD-201004
(CD2) **AKHILESH PANDEY**, 18-D, 3RD FLOOR, POCKET D, SFS FLATS, MAYUR VIHAR PHASE-3, DELHI-110096
(CD3) **SHRI BALAJI HI-TECH CONSTRUCTION PVT. LTD.**, HAVING ITS REGD. OFFICE AT: D3, VIVEK VIHAR, DELHI-110095

Whereas you the, **SHASHI PRABHA MISHRA** was ordered by the Presiding Officer of **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT 1)** who had issued the Recovery Certificate dated 03/12/2019 in to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of **Rs. 48,28,665.00 (Rupees Forty Eight Lakhs Twenty Eight Thousands Six Hundred Sixty Five Only)** along with pendente lite and future interest @ 10.50% w.e.f. 10/06/2016 till realization and costs of Rs 50,000.00, and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **24/12/2024 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

SPECIFICATION OF PROPERTY.
PROPERTY BEARING FLAT NO. FH/B-1105 SITUATED AT FOSTER HEIGHTS SITUATED AT PLOT NO. 14, SECTOR 2, BEHIND ABES ENGINEERING COLLEGE, NH-24, CROSSING REPUBLIC, GHAZIABAD, UP.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 02/04/2024

Recovery Officer
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)

Note: Strike out whichever is not applicable...

SHERVANI INDUSTRIAL SYNDICATE LIMITED
Regd. Office: Shervani Nagar, Sulem Sarai, Harwarra, Prayagraj-211015
CIN: L45202UP1948PLC001891
Tel:- +91-7311128115, Fax:- +91-532-2436928, Website: www.shervaniind.com

Extract of statement of standalone and consolidated Audited Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2024 (Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024
1.	Total income from operations (Net)	2454	350	13781	2968	476	14270
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items)	25	2	3259	36	5	3279
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	25	2	3259	36	5	3374
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	(259)	(69)	2975	(263)	1876	3085
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax and other Comprehensive Income (after tax))	(256)	(93)	2,979	(260)	1,852	3089
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	259	272	259	259	272	259
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	8,964	-	-	11,074
8.	Earning per share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)						
	Basic:	(9.99)	(2.54)	114.78	(10.15)	69.00	119.02
	Diluted:	(9.50)	(2.54)	109.09	(9.64)	69.00	113.13

Note: 1. The above results have been reviewed by audit committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 24th May, 2024 and is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Year ended Financial Results are available on the Company's Website at www.shervaniind.com and can also be accessed on the Website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

For Shervani Industrial Syndicate Limited
Mustafa R. Shervani
Managing Director
DIN: 02379954

Place : Prayagraj
Date : 24.05.2024

FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED
CIN No. L72100DL1993PLC179154
Reg. Office: 205, 2nd Floor, Agarwal Chamber IV, 27, Veer Savarkar Block, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-92
Corporate Office: Plot No. 83, NSEZ, Noida Dadi Road, Phase-II, Gautam Budh Nagar, Noida-201305

STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS OF FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 PREPARED IN COMPLIANCE WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS) (Rs. in Laacs)

Particulars	QUARTER ENDED	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	MARCH 31, 2024 AUDITED	MARCH 31, 2024 AUDITED	MARCH 31, 2023 AUDITED
Total Income from Operations (Net)	959.70	3,656.51	3,491.39
Net Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities after tax	(112.71)	(1,204.53)	145.98
Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after tax (after extra-ordinary items)	(112.71)	(1,204.53)	145.98
Equity Share Capital	17,095.53	17,095.53	17,095.53
Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	8,250.19	8,250.19	(438.53)
Earning Per Share (Rs)* (Not annualised)			
Basic before Extraordinary items (in Rs.)	(0.007)	(0.070)	0.009
Diluted before Extraordinary items (in Rs.)	(0.007)	(0.070)	0.009
Basic after Extraordinary items (in Rs.)	(0.007)	(0.070)	0.009
Diluted after Extraordinary items (in Rs.)	(0.007)	(0.070)	0.009

Notes

1) Standalone Information

Particulars	QUARTER ENDED	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	MARCH 31, 2024 AUDITED	MARCH 31, 2024 AUDITED	MARCH 31, 2023 AUDITED
Total Income from Operations (Net)	949.22	3,619.08	3,494.88
Net Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities after tax	(453.21)	(1,392.65)	194.66
Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after tax (after extra-ordinary items)	(453.21)	(1,392.65)	194.66
Equity Share Capital	17,095.53	17,095.53	17,095.53
Basic before Extraordinary items (in Rs.)	(0.027)	(0.081)	0.011
Diluted before Extraordinary items (in Rs.)	(0.027)	(0.081)	0.011
Basic after Extraordinary items (in Rs.)	(0.027)	(0.081)	0.011
Diluted after Extraordinary items (in Rs.)	(0.027)	(0.081)	0.011

2) 2-The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites on BSE (www.bseindia.com), on NSE (www.nseindia.com) and on the Company websites (www.fcsitd.com)

By order of the Board of Directors
For FCS Software Solutions Ltd
Sd/-
(Director)

Place: Noida
Date: 24 May, 2023

NOTICE

This is to inform the General Public that the following share certificate of the name of company **M/S. Kajaria Ceramics Limited** having its Registered Office at **SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli, Gurgaon Road, Gurgaon Haryana - 122001** registered in the name of the following shareholder/s has been lost by them.

Name of the Shareholder/s	Folio No	Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
Darshan Gupta	00031890	651	157034815-157035694	880 (F.V. Rs. 1/-)

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.
Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents **M/s. MCS Share Transfer Agent Limited**, F 65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place: Delhi Name of Survivor
Date: 24-05-2024 Sachin Gupta

FORM NO. 5
BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
600/1, UNIVERSITY ROAD, NEAR HANUMAN SETU MANDIR, LUCKNOW
SUMMONS FOR FILING OF REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION
O.A. 699 OF 2023
DATE: 02/05/2024

PUNJAB NATIONAL BANK
VERSUS
SH. VARUN TYAGI & ANR.

To,
1. **SH. VARUN TYAGI (BORROWER) S/O. SH. MAHESH TYAGI**
AT: B-229, NAND GRAM, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201001.
2. **SMT. NEHA KAUSHIK (GUARANTOR) D/O SH. JITENDER KAUSHIK**
AT: B-283A, NAND GRAM, GHAZIABAD-201001, UTTAR PRADESH

In the above noted Application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **30.05.2024 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

IDFC First Bank Limited
(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)
CIN : L6510TN2014PLC097792
Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax : +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)** The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)** are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	14100825	LOAN AGAINST PROPERTY	1. MEHBOOB ALI 2. YASMEEN MEHBOOBALI	03.04.2024	7,53,384.67/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE FREEHOLD RESIDENTIAL PROPERTY WITH CONSTRUCTION THEREON ON THE LAND OF PLOT NO. 49PART, ADMEASURING 60 SQ. YDS. I.E. 50.16 SQ. MTRS., SITUATED ON KHASRA NO. 3924 MIN, LAXMI GARDEN, VILLAGE DHARAUTI KHURD, PARGANA & TEHSIL LONI, DISTRICT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201102, AND, BOUNDED AS: EAST: OTHER PROPERTY, WEST: OTHER PROPERTY NORTH: 20 FT WIDE ROAD, SOUTH: REMAINING PART OF PLOT
2	14609988	LOAN AGAINST PROPERTY	1. RAKESH SAINI (IN THE CAPACITY OF AVAILABLE LEGAL HEIR OF LATE RAJENDER LALLU RAM)	08.05.2024	13,61,586.08/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LAND AREA MEASURING 150 SQ. YDS., SITUATED AT OLD WARD NO.6, NEW WARD NO. 4, FARUKHNAGAR, LALDORA ABADI, TEHSIL: FARUKHNAGAR, DISTRICT: GURUGRAM, HARYANA-123506, AND BOUNDED AS:EAST:RASTA 6 FT WIDE & PROPERTY OF HIRA LAL, WEST: PROPERTY OF MUKHRAM, NORTH: PROPERTY OF SATISH SOUTH: PROPERTY OF SANTOSH
3	28886544 & 33926894	LOAN AGAINST PROPERTY	1. VEERWATI NAND KISHOR 2. NAND KISHORE	28.03.2024	9,69,899.35/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT MEASURING 60 SQ. YDS., OUT OF KHASRA NO 1726 TO 1733, 1735, 1738 TO 1743, 1845 TO 1757, 1759, 1761 TO 1769, 1773, 1774, SITUATED AT WAKA MAUJA BASELWA COLONY, TEHSIL & DISTRICT: FARIDABAD, HARYANA- 121002, AND BOUNDED AS: EAST: HOUSE NO. 308 (HARISH CHAND), WEST: HOUSE NO. 310 (NAREHS), NORTH: GALI 12FT WIDE (GALI NO. 07), SOUTH: OTHER PROPERTY

You are hereby called upon to pay the amounts to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)** as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)**. Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Date : 25.05.2024
Place : DELHI/INCR (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

Sd/-
Authorized Officer
IDFC FIRST Bank Limited

Paramount Communications Limited
Regd. Office: KH-433, Maulsari Avenue, Westend Greens, Rangpuri, New Delhi-110037
Phone: 91-11-45618800; Fax: 91-11-25893719-20; Web: www.paramountcables.com
CIN: L74899DL1994PLC061295

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (Rs. in Lakhs)

Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
	Quarter Ended		Year Ended			Quarter Ended		Year Ended		
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Total income from operations	31,110.70	27,534.18	20,207.81	1,04,727.52	79,646.65	32,337.07	28,425.17	20,207.81	1,07,060.19	79,646.65
Profit/(Loss) from ordinary activities after finance costs but before exceptional items	2,567.02	2,190.05	1,380.10	8,155.39	4,776.75	2,588.81	2,205.90	1,380.10	8,198.23	4,776.75
Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	2,567.02	2,190.05	1,380.10	8,155.39	4,776.75	2,588.81	2,205.90	1,380.10	8,198.23	4,776.75
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	2,950.30	2,190.05	1,380.10	8,538.67	4,776.75	2,949.35	2,202.69	1,380.10	8,563.18	4,776.75
Other comprehensive income/(loss)	(123.19)	8.87	(8.44)	(96.57)	35.49	(123.19)	8.87	(8.44)	(96.57)	35.49
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) and other comprehensive income for the period)	2,827.11	2,198.92	1,371.66	8,442.10	4,812.24	2,826.16	2,211.56	1,371.66	8,466.61	4,812.24
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- Per Equity Share)	6,068.70	5,592.20	3,883.68	6,068.70	3,883.68	6,068.70	5,592.20	3,883.68	6,068.70	3,883.68
Other Equity Excluding revaluation Reserve				56,522.39	25,624.50				56,546.89	25,624.50
Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (Not Annualised):										
a) Basic	0.99	0.80	0.67	3.28	2.40	1.00	0.81	0.67	3.29	2.40
b) Diluted	0.99	0.80	0.67	3.28	2.40	1.00	0.81	0.67	3.29	2.40

The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Audited Financial Results are available on company's website at www.paramountcables.com and the stock exchange's websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Place: New Delhi
Date: 24.05.2024

By and on behalf of the Board
For PARAMOUNT COMMUNICATIONS LTD.
Sd/-
Sanjay Aggarwal
(Chairman & CEO)
DIN: 00001788

PNC INFRATECH LIMITED
Registered Office: NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi - 110017
CIN: L45201DL1999PLC195937, Email: complianceofficer@pncinfratech.com, Website: www.pncinfratech.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (Rs. in Lakhs (except EPS))

S. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended		Year ended			Quarter Ended		Year ended		
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from Operations	2,35,202.67	1,80,697.40	2,12,516.30	7,72,695.81	7,09,911.37	2,62,415.15	2,06,315.85	2,32,854.24	8,73,138.16	8,03,671.17
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	53,512.33	20,040.94	24,897.62	1,13,607.19	81,835.72	53,290.32	23,547.45	24,432.06	1,24,874.29	95,746.16
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	53,512.33	20,040.94	24,897.62	1,13,607.19	81,835.72	53,290.32	23,547.45	24,432.06	1,24,874.29	95,746.16
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40,234.03	15,108.42	18,445.91	84,979.00	61,147.36	39,589.39	18,499.50	14,598.19	90,942.07	65,845.06
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	40,310.25	15,175.97	18,960.71	85,257.87	61,417.56	39,694.60	18,535.52	13,991.00	91,259.76	66,197.97
6	Equity Share Capital	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	4,73,000.58	3,89,025.41	-	-	-	5,13,351.17	4,23,373.55
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted	15.68	5.89	7.19	33.13	23.84	15.43	7.21	5.69	35.45	25.67
		(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Annualized)	(Annualized)	(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Annualized)	(Annualized)

Notes:

1) The above is an extract of the detailed format of Quarter/Year Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/ Year Ended Financial Results are available on Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website i.e. www.pncinfratech.com.

2) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 24, 2024. The Statutory Auditors have issued audit report with unmodified opinion on Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the year ended 31st March, 2024.

3) Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.

For PNC Infratech Ltd.
Sd/-
Chakresh Kumar Jain
Managing Director
(DIN: 00086768)

Place: Agra
Date: May 24, 2024

